

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(अगस्त 2017)

नालियो व सडको की सफाई मे निगम ने झोकी ताकत

नगर निगम के सफाई विभाग के अमले मे आज विशेष गैग लगा रिग रोड की सडक व नालियो कर सफाई की गई आयुक्त सुर्यकिरण तिवारी के नेतृत्व मे निगम के अमले मे रिग रोड के अलावा स्कुल रोड गुदरी बाजार गुदरी चौक मे भी सफाई की तथा सडको एंव नालियो मे कचरा फेकने वाले दुकानदार ठेला गुमटी संचालको को समझाइश देते हुए 10150 रूपये का जुर्माना वसुल किया इसके अलावा डोर टु डोर कचरा संग्रहण मे युजर चार्ज नही दे असहयोगात्मक रवैया अपनाने पर लोगो से 2100 रूपये का युजर चार्ज भी वसुला गया इस दौरान निगम के स्वच्छता एंव स्वास्थ्य प्रभारी अवधेश पाण्डेय राजस्व निरीक्षक योगेश्वर उपाध्याय अमरेश सिंह शिव सोनी रिकु सैनी आदि उपस्थित थे

आखिरकार होमगार्ड ने हैण्डओवर लिया निगम के दमकल विभाग को

निगम से बेदखल हुए 31 कर्मचारियो सहित दमकल विभाग को होमगार्ड द्वारा हैण्ड ओवर नही लिये जाने के संबध मे नवभारत द्वारा ध्यानकर्षण कराये जाने पर सरगुजा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्यस्थता की तथ निगम व होमगार्ड के अधिकारियो की बैठक ले उच्चधिकारियो से फोन पर चर्चा करते हुए इस ओर तत्काल कार्यवाही की बात कही

आज देर शाम कलेक्टर किरण कौशल की पहल पर होमगार्ड के जिला सेनानी नागेन्द्र सिंह दमकल विभाग मे पहुंचे और निगम अधिकारियो से दमकल विभाग का आधिपत्य अपने हाथ मे लिया होमगार्ड मे तैयारियो को लेकर विलंब को देखते हुए अति आवश्यक दमकल सेवा के बाधित होने की स्थिति मे कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने निगम व होमगार्ड विभाग के अधिकारियो की बैठक ले तत्काल कमियो को दुर करते हुए दमकल की सेवा होमगार्ड मे बहाल करने की बात कही

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करे.

कार्यालय का पता – नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी
अम्बिकापुर (छ.ग.)